

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, झंझारपुर

पत्रांक 1842

झंझारपुर / दिनांक 16/11/2022

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, झंझारपुर ।

सेवा में,

Post Master

Madhepura

विषय:- NSI बैंक गॉरण्टी / एफ0 डी0 सत्यापन कर भेजने के संबंध में ।
महाराज,

उपर्युक्त विषय के संबंध में श्री रंजीत कुमार राउत ग्राम जैजा
पोस्ट जैजा जिला मधुबनी का B/G / F.D NO. 700,000
रु0 700,000 (सात लाख 700,000) जो आपके शाखा से निर्गत है
को सत्यापित कर उचित माध्यम से भेजा जाय ताकि अग्रेसर कार्रवाई की जा सके ।
Details:-

- ① A/c no. 020054977270- 500000/-
- ② A/c no. 020054979411- 200000/-
- 700,000/-

विराजसभाजन

Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division, Jharkhand
कार्य प्रमण्डल, झंझारपुर ।

Verified 15/11/22
66026

17/11/22
APM (SEHU)
Madhubani 40-84721

1. Passbook is a record of transactions for the information of the depositor and balance shown in it cannot be claimed legally.
2. It is the duty of the depositor to confirm balance shown in the passbook from the concerned post office and the office is legally liable to pay the amount actually deposited.
3. Always take a printed receipt from the post office when you hand over the passbook to the post office for any purpose.
4. Always keep the passbook in your personal custody and post office will not be responsible for any loss of money in case passbook is handed over to any other person.
5. Do not keep specimen signatures in the passbook.
6. Check balance after transaction written in the passbook and contact postmaster immediately in case of any discrepancy.
7. In case of loss of passbook, report the matter in writing to the postmaster immediately.
8. Intimate change of address if any to the postmaster.
9. Don't hand over blank signed withdrawal form to any person including authorized agents.
10. Do not appoint postmasters or authorised agents as messengers for withdrawal of money from the account.

Salient features of National Savings Schemes/Schemes
Schemes is available at
<https://www.financialprotection.gov.in/Post-Office-Saving-Schemes>
and details are given below at

<https://www.financialprotection.gov.in/VAS/Post-Office-Saving-Schemes>

NSC VILL-13906

SOLID/NAME: 04740801/Madhepur 3.0

IFSC Code : TPOS0000DOP

Account No: 020054977270

CIF(s) / Depositor(s) Name :

1: 774237108 / RANJIT KUMAR RAUT

2: /

3: /

Depositor(s) Address :

1. VILL+PO-BHEKIA//VIA-MADHEPUR

2.

MADHUBANI/BIHAR/847408

Account Open Date : 16-11-2022

Mode of Operation : SELF

Nomination : Yes

Deposit Amount (in Rs.) : 500000

(Rupees five lakh)

Maturity Date : 16-11-2027

Maturity Amount (in Rs) : 694746

(Rupees Six lakh Ninety Four Thousand Sav
Through Agent : Yes

Signature of Postmaster:

[Handwritten Signature]

POSTMASTER (1)

04740801 MADHEPUR

RAJJEET KUMAR RAUT S/O RAM GULAM RAUT
 S/O RAM GULAM RAUT, VILL PO BHEJA
 WARD 7, ANCHAL MADHUPUR, DIST MADHUBANI
 847408
 INDIA

सावधि खाता क / FD A/c No	84855222021
सावधि सूचना क / FD Advice No	FD81795222021
कस्टमर आईडी क / Customer ID No	MR65564124
सम्बन्धित खाता / Linked Operative a/c	84855222020053
शाखा का नाम/Branch Name	LAZIMPUJ MADHESWAR

योजना / Scheme	FIXED DEPOSIT - RRPDR(RES)
नामांकन / Nomination	Y
नामिती पंजीकरण क्रमांक / Nominee Registration No.	1
पैन नंबर / PAN No.	ASLPR6594D
परिचालन पद्धति / Mode of Operation	SELF

ਸੰਯੁਕਤ ਮਾਲਕ / Joint Holder (s)

अभिभावक का नाम
(यदि ध्यानाभावक अभ्यासक है) /
Guardian Name
(If a/c holder is minor)

लियन चिह्नित / Lion Marked N

जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	व्याजदर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value*
₹900000	17-05-2022	5.20	36 Months 0 Day	17-05-2025	1056887

*परिचयता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार) Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्तें/Terms & Conditions:

1. खाता दर प्रतिभूत हो वार्षिक है
2. खात नवीकरण वार्षिक
- ग) ब्याज अथवा अनाइस न दिए हो तो 1 वर्ष व इससे अधिक अवधि के लिए की गई जमागति का नवीकरण दैनिक ब्याज पर प्रयोजित खाते दरी की अनुसूची 1 वर्ष के लिए किया जाएगा
- घ) ब्याज निदेश न दिए जाने पर 1 वर्ष से कम अवधि के लिए की गई जमागति का नवीकरण दैनिक ब्याज पर प्रयोजित खाते दरी के अनुसार दूसरी ही अवधि के लिए किया जाएगा,
3. परिधि 1, 2, 3 और 15 एवं बिना निशानी वाली के लिए है
- अ) निशानी आवश्यकता द्वारा प्रत्येक वित्त वर्ष में दूसरी निर्धारित सीमा पूरा होने से पूर्व एक बराबर 15 और 15 फरवरी 1991 (ब्याज हो) प्रस्तुत किया जाए अथवा सीमा पर कर कटौती की जाएगी,
5. परिधि एवं कवर सीमाएं जमागति की एक वर्ष से अधिक मात्रा में हो प्रयोजित किए जाएगी
6. प्रतिपक्षता आदेश कलोन
- ग) 1 करोड़ तक की जमागति की प्रतिपक्षता अवधि से पूर्व दूसरी आदेश (निशानी) से 1% पैनल की जमागति प्रयोजित जमा किए जाने की तारीख से त्रिवर्ती अवधि तक बैंक में सीमा रही इसके बाद 1% से कम
- घ) 1 करोड़ से अधिक की की जमागति की प्रतिपक्षता अवधि से पूर्व दूसरी आदेश (निशानी) पर 1.5% पैनल की जमागति प्रयोजित जमा किए जाने की तारीख से त्रिवर्ती अवधि तक बैंक में सीमा रही इसके बाद 1% से 1.5% तक 1 करोड़ से अधिक की की जमागति की प्रतिपक्षता अवधि से पूर्व दूसरी आदेश के लिए बैंक को कम से कम आठ दिन पूर्व सूचना दी जानी है
7. Automatic Renewal Clause
- ग) For Deposits issued for a period of 1 year and above. Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise
- घ) For Deposits issued for a period of less than 1 year. Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise
3. Form 15G and 15H is applicable to Resident account holders.
4. A fresh 15G/15H/15A (if applicable) has to be submitted by Resident account holders for each financial year, prior to crossing the threshold limit, taking which 15G will be deducted.
5. Form 15H can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more).
6. Premature Withdrawal Clause
- ग) Premature withdrawal of deposit upto 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than card rate on the date of deposit for the period for which deposit has remained with Bank.
- घ) Premature withdrawal of deposit above 1 crore will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit above 1 crore, a withdrawal notice of 30 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank.

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature

Pledge to E.E.F.C.D 2 JHANTY
Released to E.E.RWD.W.D-J.F.F